

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2014 (कार्तिक 17, 1936)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8—NOVEMBER 14, 2014 (KARTIKA 17, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2014

सेना शाखा

सं. 247, दिनांक 16 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

यथा संशोधित अनुदेश 219/50 के तहत निम्नलिखित अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से कप्तान के रैंक में स्थाई कमीशन प्रदान किया जाता है और दिनांक 05 जून 2014 से अल्पकालीन कमीशन से मुक्त किया जाता है:-

रैंक, नाम एवं व्यक्तिगत संख्या	अल्पकालिक सेवा कमीशन की तिथि	पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के पश्चात वरिष्ठता की तिथि	वेतन एवं पदोन्नति हेतु वरिष्ठता की तिथि	स्थायी कमीशन की तिथि
कप्तान आशिष कुमार सिंह (वी एस-1161पी अब वी-636एफ)	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	05 जून 2014
कप्तान अंशुल रियोठिया (वी एस-1169एफ अब वी-637के)	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	05 जून 2014
कप्तान सुधीर कर्नाल शर्मा (वी एस-1170डब्ल्यू अब वी-638एम)	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	05 जून 2014
कप्तान राघव शर्मा (वी एस-1171वाई अब वी-639पी)	19 सितम्बर 2011	19 सितम्बर 2010	19 सितम्बर 2010	05 जून 2014
कप्तान निखिल अरोरा (वी एस-1178एम अब वी-640के)	19 सितम्बर 2011	19 सितम्बर 2011	19 सितम्बर 2011	05 जून 2014
कप्तान अमन सूद (वी एस-1179एल अब वी-641एम)	19 सितम्बर 2011	19 सितम्बर 2011	19 सितम्बर 2011	05 जून 2014
कप्तान राज भारत शर्मा (वी एस-1180ए अब वी-642पी)	19 सितम्बर 2011	19 सितम्बर 2010	19 सितम्बर 2010	05 जून 2014
कप्तान जयपोल चौहान (वी एस-1183एन अब वी-643एक्स)	19 सितम्बर 2011	19 सितम्बर 2011	19 सितम्बर 2011	05 जून 2014
कप्तान मनोज यादव (वी एस-1185वाई अब वी-644ए)	19 सितम्बर 2011	19 सितम्बर 2011	19 सितम्बर 2011	05 जून 2014
कप्तान केशम रोमी सिंह (वी एस-1187के अब वी-645एच)	19 सितम्बर 2011	19 सितम्बर 2011	19 सितम्बर 2011	05 जून 2014
कप्तान जी टी आदर्श (वी एस-1188एम अब वी-646एल)	19 सितम्बर 2011	19 सितम्बर 2010	19 सितम्बर 2010	05 जून 2014

दीपक नारंग
अवर सचिव

सेना सचिव शाखा

सं. 248, दिनांक 17 अक्टूबर 2014—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

थल सेना मुख्यालय

थल सेनाध्यक्ष के पद पर

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	थल सेनाध्यक्ष की प्रभावी तिथि
1.	आई सी-30351 जनरल दलबीर सिंह, पी वी एस एम, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम, ए डी सी, 5 जीआर	01.08.14

जनरल के मूल रैंक में

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
1.	आई सी-30351 जनरल दलबीर सिंह, पी वी एस एम, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम, ए डी सी, 5 जीआर	01.08.14

लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक में

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
1.	आई सी-34901 ए/ले0 जनरल पी आर शंकर, वी एस एम, आर्टि	01.11.13

मेजर जनरल के मूल रैंक में

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
1.	आई सी-34392, ए/मेजर जनरल गुरमीत सिंह, वी एस एम, असम	11.08.10 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.01.10 से दी जायेगी।

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
1.	वी-00347, ए/मेजर जनरल जगविन्दर सिंह, आर वी सी	01.04.12

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
1.	वी-00350 ए/ ब्रिग. दीपक बेडियाल, आर वी सी	03.11.11
2.	वी-00358 ए/ब्रिग. पी एस नरवाल, आर वी सी	01.04.12

पी के पटनायक
निदेशक एम एस (एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 249, दिनांक 20 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

मेजर जनरल (व समकक्ष) से ले.जनरल (व समकक्ष) के पद पर

- (क) वी पी चतुर्वेदी, वीएसएम — 01-05-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-04006वाई) काल्पनिक वरीयता 30-11-13 से दी जाती है।

यश पांडे

मेजर जनरल

अपर महानिदेशक स.से.चि.से.(मा.सं.)

थल सेना शाखा

सं. 250, दिनांक 21 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

- (क) दीपक कालरा, वीएसएम — 04-03-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-03989एम) काल्पनिक वरीयता 01-01-14 से दी जाती है।
- (ख) ए के दास — 01-05-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-03992एम) काल्पनिक वरीयता 01-04-14 से दी जाती है।
- (घ) मैनोमॉय गांगुली — 01-05-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-04141एम) काल्पनिक वरीयता 02-05-14 से दी जाती है।
- (ङ) राजवीर सिंह, वीएसएम — 08-05-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-04153एफ) काल्पनिक वरीयता 03-05-14 से दी जाती है।

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) के पद पर

- (क) (श्रीमती) आर दत्ता — 07-03-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक
(एमआर-05966के) वरीयता 02-04-13 से दी जाती है।

सर्ज कैप्टन (व समकक्ष) से सर्ज कमोडोर (व समकक्ष) के पद पर

- (क) ए के आनंद — 31-03-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक
(एमआर-04900एफ) (75318ए) वरीयता 03-02-14 से दी जाती है।

विंग कमांडर से गुप कैप्टन (टीएस) के पद पर

(क)	(एमआर-05891एक्स) (एएफ-19348जी)	विंग कमांडर	राजीव अग्रवाल	01 दिसंबर 2012
(ख)	(एमआर-06467एफ) (एएफ-19360एच)	विंग कमांडर	एम बिश्वास	01 दिसंबर 2012

डी वी सिंह

ब्रिगेडियर

उपमहानिदेशक स.से.चि.से.(मा.सं.)

सेना शाखा

सं. 251, दिनांक 22 अक्टूबर 2014--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले0 कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

क्रम सं.	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
1	आईसी 46740	आरएन स्कॉट	एओसी	13-04-2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-05-2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

1	आईसी 52829	संजीव कुमार	आर्टी	30-09-2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
2	आईसी 51182	डीसी दुबे	एवीएन	11-02-2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-05-2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

1	आईसी 53922	आर मलिक	एसी	11-07-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31-12-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
2	आईसी 53336	वीएस सुरेश	इन्जीनियर्स	20-03-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

1	आईसी 54374	शकील अहमद	एसी	10-08-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
2	आईसी 54390	जी डिमरी	एसी	27-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
3	आईसी 55608	वी मिधा	एसी	04-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
4	आईसी 56714	वी गोंदी	एसी	31-08-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
5	आईसी 56744	अजय दलाल	एसी	30-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
6	आईसी 56756	एच सिंह	एसी	30-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
7	आईसी 56877	ए कश्यप	एसी	07-12-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

क्रम सं.	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
1	आईसी 55218	बाल सिंह	एसी	05-08-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31-12-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
2	आईसी 56950	डी रामानंद	आर्टी	06-05-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
3	आईसी 56999	ए कपूर	आर्टी	18-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
4	आईसी 57004	ए पी सिंह	आर्टी	05-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
5	आईसी 57020	जी कपूर	आर्टी	18-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
6	आईसी 57062	आई ए खान	आर्टी	14-03-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
7	आईसी 57128	एल एस कुमार	आर्टी	24-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
8	आईसी 57398	ए आशीष	आर्टी	29-07-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
9	आईसी 57559	गवडे वी के	आर्टी	22-04-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
10	आईसी 56727	एस एफ अहमद	मैक	14-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
11	आईसी 53498	करवे आनंद अनिल	इन्जीनियर्स	15-07-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31-12-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
12	आईसी 53538	नौनी टी	इन्जीनियर्स	15-04-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31-12-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
13	आईसी 53940	एच पी सिंह	इन्जीनियर्स	24-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31-12-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
14	आईसी 51408	एन रॉय	आईसी	29-10-2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-06-2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
15	आईसी 52047	ए के मोहंती	आईसी	07-09-2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-06-2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
16	आईसी 52299	टी विश्वास	आईसी	18-10-2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-06-2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
17	आईसी 52323	विकास मोहन	आईसी	07-10-2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-06-2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
18	आईसी 52736	कुलबीर सिंह	एओसी	01-01-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
19	आईसी 52785	डी एस गुलेरिया	एओसी	01-04-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
20	आईसी 52877	वी भाटिया	एओसी	01-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

क्रम सं.	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
21	आईसी 52893	ए ठाकुर	एओसी	01-07-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
22	आईसी 52909	वी गंभीर	एओसी	01-08-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
23	आईसी 46620	आर वेंकटेश	एओसी	01-08-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
24	आईसी 53144	वी चौहान	एओसी	01-08-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
25	आईसी 53174	के एस रोहिल	एओसी	01-10-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
26	आईसी 53207	ए संघू	एओसी	02-10-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
27	आईसी 53223	एस वी एस रजवी	एओसी	19-10-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
28	आईसी 53269	के पंघाल	एओसी	19-10-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
29	आईसी 53360	वी बालाचंद्रन	एओसी	01-01-2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
30	आईसी 53376	वी गौर	एओसी	01-02-2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
31	आईसी 53139	के रंजीत	ईएमई	04-03-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
32	आईसी 53180	ए जौहर	ईएमई	12-04-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
33	आईसी 53194	एस सूद	ईएमई	26-03-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
34	आईसी 53202	रवि सिंह	ईएमई	15-04-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
35	आईसी 53296	वी मधोक	ईएमई	22-04-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
36	आईसी 53298	डी वाष्णेय	ईएमई	29-04-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
37	आईसी 53324	वी के मिश्रा	ईएमई	13-04-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
38	आईसी 53326	एम एस सोनी	ईएमई	01-07-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
39	आईसी 53393	पी पी सिंह	ईएमई	21-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
40	आईसी 56921	वी के एस चौहान	ईएमई	15-07-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

क्रम सं.	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
41	वी 00506	मंगल सिंह	आरवीसी	05-04- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
42	वी 00501	अमित कुमार	आरवीसी	17-04- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

1	आईसी 55650	एसएस चीमा	एसी	12-09- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
2	आईसी 55687	सुमित कादियान	एसी	11-11- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
3	आईसी 56933	यू एस ढिल्लों	एसी	25-11- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
4	आईसी 56934	ए के तिवारी	एसी	10-02- 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
5	आईसी 56938	एस प्रकाश	एसी	31-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
6	आईसी 57034	ए उप्पल	एसी	26-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
7	आईसी 57059	पी जोशी	एसी	16-08- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
8	आईसी 57090	जितेंदर सिंह	एसी	29-10- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
9	आईसी 57096	एम के सिंह	एसी	25-07- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
10	आईसी 57121	एस दूबे	एसी	22-08- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
11	आईसी 57174	जे एस गिल	एसी	01-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
12	आईसी 57349	वी कार्तिक	एसी	20-09- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
13	आईसी 57472	वाई सिंह	एसी	10-09- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
14	आईसी 57654	एस दीप	एसी	25-07- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
15	आईसी 55437	जे मान	ए ए डी	21-10- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
16	आईसी 56645	नवनीत छैल	ए वी एन	17-10- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

क्रम सं.	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
17	आईसी 57094	एस प्रताप	इन्फैन्ट्री	24-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
18	आईसी 55794	वी वाधवा	इन्फैन्ट्री	17-09- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
19	आईसी 55812	वी एस कोचर	इन्फैन्ट्री	22-09- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
20	आईसी 55815	आर रामानाथन	इन्फैन्ट्री	22-06- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
21	आईसी 55834	ए के चंद	इन्फैन्ट्री	20-11- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
22	आईसी 57763	वी कादियन	इन्फैन्ट्री	27-09- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
23	आईसी 57765	चिंख्रेंगांबा	इन्फैन्ट्री	13-06- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
24	आईसी 57775	ए छंबियाल	इन्फैन्ट्री	04-10- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
25	आईसी 57811	पी एस संधू	इन्फैन्ट्री	22-01- 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
26	आईसी 57821	ए जायसवाल	इन्फैन्ट्री	13-06- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
27	आईसी 57836	बी एस संधू	इन्फैन्ट्री	23-09- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
28	आईसी 57846	वी वी रमनन	इन्फैन्ट्री	13-06- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
29	आईसी 57851	एम आर जगदीश	इन्फैन्ट्री	13-06- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
30	आईसी 57860	वाई के बिष्ट	इन्फैन्ट्री	20-08- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
31	आईसी 57879	ए पंघल	इन्फैन्ट्री	20-09- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
32	आईसी 57892	यू बी बारावकर	इन्फैन्ट्री	05-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
33	आईसी 57956	सरबजीत सिंह	इन्फैन्ट्री	21-09- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
34	आईसी 57959	राजमीत सिंह	इन्फैन्ट्री	13-06- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
35	आईसी 57969	आर एस परिहार	इन्फैन्ट्री	09-08- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
36	आईसी 57999	पी के द्विवेदी	इन्फैन्ट्री	13-06- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

क्रम सं.	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
37	आईसी 58013	एन गुरुंग	इन्फैन्ट्री	03-11-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
38	आईसी 58052	एस भट्टाचार्य	इन्फैन्ट्री	13-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
39	आईसी 58063	एन कादियान	इन्फैन्ट्री	13-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
40	आईसी 55971	जोधवीर सिंह	इन्फैन्ट्री	07-11-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
41	आईसी 55973	एच अटवाल	इन्फैन्ट्री	07-11-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
42	आईसी 55975	ए हूडा	इन्फैन्ट्री	07-11-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
43	आईसी 55978	आर कुमार	इन्फैन्ट्री	07-11-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
44	आईसी 55985	एस मदन	इन्फैन्ट्री	07-11-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
45	आईसी 55999	एस सकलानी	इन्फैन्ट्री	07-11-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
46	आईसी 56003	पी पी साहा	इन्फैन्ट्री	07-11-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
47	आईसी 56023	के जे श्रीनिवासन	इन्फैन्ट्री	07-11-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
48	आईसी 56037	वी राठी	इन्फैन्ट्री	07-11-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
49	आईसी 56043	एस आर आनंदराव	इन्फैन्ट्री	07-11-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
50	आईसी 58150	एम एस कहलौ	इन्फैन्ट्री	12-12-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
51	आईसी 58155	राजेश कुमार	इन्फैन्ट्री	12-12-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
52	आईसी 58159	एस वी कुलकर्णी	इन्फैन्ट्री	12-12-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
53	आईसी 58164	कुनाल शर्मा	इन्फैन्ट्री	12-12-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
54	आईसी 58165	मनीष सहगल	इन्फैन्ट्री	12-12-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
55	आईसी 58179	गगन आनंद	इन्फैन्ट्री	12-12-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
56	आईसी 58180	जी डी कोले	इन्फैन्ट्री	12-12-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
57	आईसी 58183	अशोक आर्या	इन्फैन्ट्री	12-12-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

क्रम सं.	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
58	आईसी 58184	यू बी गुरुंग	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
59	आईसी 58201	प्रदीप बलहारा	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
60	आईसी 58210	जी पी सिंह	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
61	आईसी 58215	रंजीत झा	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
62	आईसी 58220	पी झिंकवान	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
63	आईसी 58226	विनीत त्यागी	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
64	आईसी 58230	अजय राज	इन्फैन्ट्री	26-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
65	आईसी 58238	मनीष कार्की	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
66	आईसी 58248	अभिजीत ठाकरे	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
67	आईसी 58249	गुरिंदर पाल	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
68	आईसी 58250	रोहित ठाकुर	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
69	आईसी 58282	आर के मिश्रा	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
70	आईसी 58291	के अरुण	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
71	आईसी 58296	कुमार रणविजय	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
72	आईसी 58301	ए पी एस भदौरिया	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
73	आईसी 58314	एस के तिवारी	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
74	आईसी 58323	वी बहुखण्डी	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
75	आईसी 58336	रणबीर सिंह	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
76	आईसी 58340	आर चौधरी	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
77	आईसी 58354	एम एस कुमार	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

क्रम सं.	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
78	आईसी 58360	प्रयोग सुब्बा	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
79	आईसी 58366	हरप्रीत सिंह	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
80	आईसी 58370	तरुन सती	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
81	आईसी 58371	हाओबम रोमेश	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
82	आईसी 58394	धीरेंद्र सिंह	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
83	आईसी 58397	बी एस उप्पल	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
84	आईसी 58400	टी के एस शेखों	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
85	आईसी 58410	मयंक पठानिया	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
86	आईसी 58430	अमित सोनी	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
87	आईसी 58432	सुमित दुआ	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
88	आईसी 58433	टी एस मान	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
89	आईसी 58443	यूसुफ सैफी	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
90	आईसी 58453	कुशल सिंह	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
91	आईसी 58454	एस शर्मा	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
92	आईसी 58461	एस दूसेजा	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
93	आईसी 58464	एस सौधी	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
94	आईसी 58468	अंजनी कुमार	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
95	आईसी 58482	वी एस संखला	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
96	आईसी 58512	बरावकर वी बी	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
97	आईसी 58520	राकेश कुमार	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

क्रम सं.	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
98	आईसी 58540	एस के पटनायक	इन्फैन्ट्री	12-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04-03-2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
99	आईसी 55444	ए त्रिपाठी	मैक	20-07- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
100	आईसी 56898	जी वी राघवन	मैक	10-11- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
101	आईसी 57052	ए शर्मा	मैक	28-10- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
102	आईसी 57070	ए ठाकुर	मैक	26-10-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
103	आईसी 57092	करमजीत सिंह	मैक	17-08- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
104	आईसी 57098	वी देव	मैक	10-09- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
105	आईसी 57370	बी एस भंडारी	मैक	04-10- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
106	आईसी 57434	एस पी एस चौहान	मैक	18-10- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
107	आईसी 55130	संदीप रात्रा	जैग	27-09-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
108	आईसी 54298	आर गुप्ता	इन्जीनियर्स	07-12- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
109	आईसी 54342	जी एस पुरी	इन्जीनियर्स	16-08- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
110	आईसी 54404	एस सिंह	इन्जीनियर्स	06-08- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
111	आईसी 56631	सोनेंदर सिंह	इन्जीनियर्स	29-08- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
112	आईसी 56677	राजेश गुप्ता	इन्जीनियर्स	13-08- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
113	आईसी 56716	एच पुंडीर	इन्जीनियर्स	14-10- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
114	आईसी 56757	एम पी सिंह	इन्जीनियर्स	22-08- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
115	आईसी 56821	आर पी एस राणा	इन्जीनियर्स	01-08- 2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

क्रम सं.	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
116	आईसी 54353	पी मिश्रा	इन्ट	20-02-2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
117	आईसी 54395	एम नारंग	इन्ट	25-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
118	आईसी 54432	ए डब्ल्यू महाजन	इन्ट	25-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
119	आईसी 56646	वकील कुमार	इन्ट	25-06-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
120	आईसी 56685	जे एस भट्टी	इन्ट	03-07-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
121	आईसी 56762	एन के संगवान	इन्ट	16-07-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21-07-2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

1	आईसी 57135	आर बिष्ट	आर्टी	01-03-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
2	आईसी 57035	संधान मिश्रा	आर्टी	15-01-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24-04-2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
3	आईसी 53969	विशाल नागपाल	सिग्नल	28-10-2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31-12-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
4	आईसी 52390	वी के कपूर	ईएमई	10-08-2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-06-2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
	आईसी 55040	संजीव पूनिया	ईएमई	26-10-2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
6	आईसी 52749	जेएस सियाल	ईएमई	22-11-2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
7	आईसी 52763	सौरभ भार्गव	ईएमई	22-10-2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-01-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
8				
9	आईसी 53900	दुर्लभ सिंह	इन्जीनियर्स	10-08-2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01-06-2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
10	आईसी 53501	रविंदर पाल सिंह	इन्जीनियर्स	01-01-2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31-12-2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

नवीन कुमार
उप निदेशक
एम एस -8ए

नियमित सेना
मिलिट्री नर्सिंग सेवा
स्थायी कमीशन

सं. 252, दिनांक 24 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

कर्नल से ब्रिगेडियर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
ब्रिगेडियर जेवियर काथरी कुट्टी	एन आर-17172 एल	01 जून 2014

सुनीता कपूर
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक (एम एन एस)

सेना शाखा

सं. 253, दिनांक 27 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना
स्थाई आयोग

ले0 कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

के स्थान पर:-

क्रम सं.	वैयक्तिक न०	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
2	वी 00386	मंजीत सिंह	आरवीसी	01/06/2008
3	वी 00391	पी आर वैकटेश	आरवीसी	01/06/2008
4	वी 00392	नरबीर सिंह	आरवीसी	01/06/2008
5	वी 00395	राजीव चौधरी	आरवीसी	01/06/2008
6	वी 00396	एस एस यादव	आरवीसी	01/06/2008

पढ़ा जाए:-

क्रम सं.	वैयक्तिक न०	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
2	वी 00386	मंजीत सिंह	आरवीसी	01/06/2008 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/05/2007 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
3	वी 00391	पी आर वैकटेश	आरवीसी	01/06/2008 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/05/2007 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
4	वी 00392	नरबीर सिंह	आरवीसी	01/06/2008 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/05/2007 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
5	वी 00395	राजीव चौधरी	आरवीसी	01/06/2008 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/05/2007 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
6	वी 00396	एसएस यादव	आरवीसी	01/06/2008 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/05/2007 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

ले० कर्नल से कर्नल(चयन द्वारा)के मूल रैंक में

के स्थान पर

क्रम सं०	वैयक्तिक नं०	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
1	वी 00398	अनिल कुमार	आरवीसी	01-05-09
2	वी 00416	राजन थापर	आरवीसी	01-05-09
3	वी 00417	के के शर्मा	आरवीसी	01-05-09
4	वी 00419	पी पी राणा	आरवीसी	01-05-09
5	वी 00402	आर वी धूमल	आरवीसी	01-05-09
6	वी 00407	पी बी देशमुख	आरवीसी	01-05-09
7	वी 00408	सी एस ओझा	आरवीसी	01-05-09
8	वी 00409	सी एस एम देसाई	आरवीसी	01-05-09
9	वी 00411	पी के पुरस्ती	आरवीसी	01-05-09

पढ़ा जाये

क्रम सं०	वैयक्तिक नं०	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
1	वी 00398	अनिल कुमार	आरवीसी	01/05/2009 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/01/2008 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
2	वी 00416	राजन थापर	आरवीसी	01/05/2009 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/01/2008 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
3	वी 00417	के के शर्मा	आरवीसी	01/05/2009 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/01/2008 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
4	वी 00419	पी पी राणा	आरवीसी	01/05/2009 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/01/2008 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
5	वी 00402	आर वी धूमल	आरवीसी	01/05/2009 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/01/2008 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
6	वी 00407	पी बी देशमुख	आरवीसी	01/05/2009 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/01/2008 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
7	वी 00408	सी एस ओझा	आरवीसी	01/05/2009 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/01/2008 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
8	वी 00409	सी एस एम देसाई	आरवीसी	01/05/2009 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/01/2008 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
9	वी 00411	पी के पुरस्ती	आरवीसी	01/05/2009 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/01/2008 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

नवीन कुमार
उप निदेशक
एम एस -8ए

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 8th November 2014

No. 247, dated 16th October 2014—The President is please to make the following appointments :-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned officers are granted Permanent Commission the rank of Captain with effect from the date as noted against each name under AI 219/50 as amended and relinquish their Short Service Commission with effect from 05 Jun 2014 with seniority for pay and promotion indicated against each officer :-

Rank, Name & No	Date of Short Service Commission	Date of seniority after according ante date seniority	Date of seniority for pay and promotion	Date of Permanent Commission
Capt Ashish Kumar Singh (VS-1161P Now V- 00636F)	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 Aug 2010	05 Jun 2014
Capt Anshul Reothia (VS-1169F Now V-00637K)	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 Aug 2010	05 Jun 2014
Capt Sudhir Karnal Sharma (VS-1170W Now V-00638M)	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 Aug 2010	05 Jun 2014
Capt Raghav Sharma (VS-1171Y Now V- 00639P)	19 Sep 2011	19 Sep 2010	19 Sep 2010	05 Jun 2014
Capt Nikhil Arora (VS-1178M Now V- 00640K)	19 Sep 2011	19 Sep 2011	19 Sep 2011	05 Jun 2014
Capt Aman Sood (VS-1179L Now V- 00641M)	19 Sep 2011	19 Sep 2011	19 Sep 2011	05 Jun 2014
Capt Raj Bharat Sharma (VS-1180A Now V-00642P)	19 Sep 2011	19 Sep 2010	19 Sep 2010	05 Jun 2014
Capt Jaipaul Chauhan (VS-1183N Now V-00643X)	19 Sep 2011	19 Sep 2011	19 Sep 2011	05 Jun 2014
Capt Manoj Yadav (VS-1185Y Now V-00644A)	19 Sep 2011	19 Sep 2011	19 Sep 2011	05 Jun 2014
Capt Keisham Romi Singh (VS-1187K Now V- 00645H)	19 Sep 2011	19 Sep 2011	19 Sep 2011	05 Jun 2014
Capt GT Adarsh (VS-1188M Now V- 00646L)	19 Sep 2011	19 Sep 2010	19 Sep 2010	05 Jun 2014

DEEPAK NARANG
Under Secy.

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 248, Dated 17th October 2014—The President is pleased to make the following promotion :-

ARMY HEADQUARTERS

TO BE CHIEF OF ARMY STAFF

Sl No	IC No	RANK	NAME	ARM	Date of Sub Rank
1	IC-30351	GENERAL	DALBIR SINGH, PVSM, UYSM, AVSM, VSM, ADC	5 GR	01.08.14

TO BE SUBSTANTIVE GENERAL

Sl No	IC No	RANK	NAME	ARM	Date of Sub Rank
1	IC-30351	GENERAL	DALBIR SINGH, PVSM, UYSM, AVSM, VSM, ADC	5 GR	01.08.14

TO BE SUBSTANTIVE LT GENERAL

Sl No	IC No	RANK	NAME	ARM	Date of Sub Lt gen
1	IC-34901	A/LT GEN	PR SHANKAR, VSM	ARTY	01.11.13

TO BE SUBSTANTIVE MAJ GEN

Sl No.	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBS MAJ GEN
1	IC-34392	A/MAJ GEN	GURMIT SINGH, VSM	ASSAM	11.08.10 with seniority from 03.01.10 without effect on pay and pension.

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O. ACTG MAJ GEN	D.O. SUBS MAJ GEN
1	V-00347	A/MAJ GEN	JAGVINDER SINGH	RVC	01.04.12	01.04.12

TO BE SUBSTANTIVE BRIGADIERS

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O. ACTG BRIG	D.O. SUBS BRIG
1	V-00350	A/BRIG	DEEPAK BADIAL	RVC	01.01.10	03.11.11
2	V-00358	A/BRIG	PS NARWAL	RVC	01.05.10	01.04.12

PK PATTNAYAK
Dir/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 249, dated 20th October 2014—The President is pleased to make the following promotion: -

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Maj Gen (& equivalent) to Lt Gen (& equivalent)

- (a) VP Chaturvedi, VSM - 01-05-14 with notional seniority without effect on pay & pension from (MR-04006Y) 30-11-13.

YASH PANDE
Maj Gen
Addl DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 250, dated 21st October 2014—The President is pleased to make the following promotions: -

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

- | | | | |
|-----|----------------------------------|---|--|
| (a) | Deepak Kalra, VSM
(MR-03989M) | - | 04-03-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-01-14. |
| (b) | AK Das
(MR-03992M) | - | 01-05-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-04-14. |
| (c) | Manomoy Ganguly
(MR-04141M) | - | 01-05-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-05-14. |
| (d) | Rajvir Singh, VSM
(MR-04153F) | - | 08-05-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-05-14. |

Col (& Equivalent) to be Brig (& Equivalent)

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|--|
| (a) | (Ms) R Datta
(MR-05966K) | - | 07-03-14, with notional seniority without effect on pay & pension from 02-04-13. |
|-----|-----------------------------|---|--|

Surg Capt (& Equivalent) to be Surg Cmde (& Equivalent)

- | | | | |
|-----|----------------------------------|---|--|
| (a) | AK Anand
(MR-04900F) (75318A) | - | 31-03-14, with notional seniority without effect on pay & pension from 03-02-14. |
|-----|----------------------------------|---|--|

WG CDR TO GP CAPT (TIME SCALE)

1.	MR-05891X (AF-19348-G)	WG CDR	RAJIV AGGARWAL	01 Dec 2012
2	MR-06467F (AF-19360-H)	WG CDR	M BISWAS	01 Dec 2012

DV SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 251, dated 22nd October 2014—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

Permanent Commission

LT COL TO BE SUBSTANTIVE COL (BY SELECTION)

S. No	P.No	Name	Regt	SUBSTANTIVE DATE	REMARKS
1	IC46740	RN SCOTT	AOC	13 Apr 2012 but sen wef 01 May 2009	
2	IC52829	SANJEEV KUMAR	ARTY	30-09-10 but sen wef 01-01-2010	FPCC attached
3	IC51182	DC DUBEY	AVN	11-02-10 but sen wef 01-05-2009	
4	IC53922	R MALIK	AC	11-07-2013 but sen wef 31-12-2010	
5	IC53336	VS SURESH	ENGRS	20-03-2013 but sen wef 01-01-2010	
6	IC54374	SAKEEL AHMAD	AC	10-08-2013 but sen wef 21-07-2011	

7	IC54390	G DIMRI	AC	27-06-2013 but sen wef 21-07-2011	
8	IC55608	V MIDHA	AC	04-06-2013 but sen wef 21-07-2011	
9	IC56714	V GOINDI	AC	31-08-2013 but sen wef 21-07-2011	
10	IC56744	AJAY DALAL	AC	30-06-2013 but sen wef 21-07-2011	
11	IC56756	H SINGH	AC	30-06-2013 but sen wef 21-07-2011	
12	IC56877	A KASHYAP	AC	07-12-2013 but sen wef 21-07-2011	
13	IC55218	BAL SINGH	AC	05-08-2013 but sen wef 31-12-2010	
14	IC56950	D RAMANAND	ARTY	06-05-2013 but sen wef 24-04-2012	
15	IC56999	A KAPOOR	ARTY	18-06-2013 but sen wef 24-04-2012	
16	IC57004	AP SINGH	ARTY	05-06-2013 but sen wef 24-04-2012	
17	IC57020	G KAPOOR	ARTY	18-06-2013 but sen wef 24-04-2012	
18	IC57062	IA KHAN	ARTY	14-03-2013 but sen wef 24-04-2012	
19	IC57128	LS KUMAR	ARTY	24-06-2013 but sen wef 24-04-2012	
20	IC57398	A ASHISH	ARTY	29-07-2013 but sen wef 24-04-2012	
21	IC57559	GAWDE VK	ARTY	22-04-2013 but sen wef 24-04-2012	
22	IC56727	SF AHMAD	MECH INF	14-06-2013 but sen wef 21-07-2011	
23	IC53498	KARVE ANAND ANIL	ENGRS	15-07-2013 but sen wef 31-12-2010	
24	IC53538	NAUNI T	ENGRS	15-04-2013 but sen wef 31-12-2010	
25	IC53940	HP SINGH	ENGRS	24-06-2013 but sen wef 31-12-2010	
26	IC51408	N ROY	AEC	29-10-2012 but sen wef 01-06-2009	
27	IC52047	AK MOHANTY	AEC	07-09-2012 but sen wef 01-06-2009	
28	IC52299	T BISWAS	AEC	18-10-2012 but sen wef 01-06-2009	
29	IC52323	VIKAS MOHAN	AEC	07-10-2012 but sen wef 01-06-2009	
30	IC52736	KULBIR SINGH	AOC	01-01-2013 but sen wef 01-01-2010	
31	IC52785	DS GULERIA	AOC	01-04-2013 but sen wef 01-01-2010	
32	IC52877	V BHATIA	AOC	01-06-2013 but sen wef 01-01-2010	
33	IC52893	A THAKUR	AOC	01-07-2013 but sen wef 01-01-2010	
34	IC52909	V GAMBHIR	AOC	01-08-2013 but sen wef 01-01-2010	
35	IC46620	R VENKATESH	AOC	01-08-2013 but sen wef 01-01-2010	
36	IC53144	V CHAUHAN	AOC	01-08-2013 but sen wef 01-01-2010	
37	IC53174	KS ROHIL	AOC	01-10-2013 but sen wef 01-01-2010	
38	IC53207	A SANDHU	AOC	02-10-2013 but sen wef 01-01-2010	
39	IC53223	SVS RAJVEE	AOC	19-10-2013 but sen wef 01-01-2010	
40	IC53269	K PANGHAL	AOC	19-10-2013 but sen wef 01-01-2010	
41	IC53360	V BALACHANDRAN	AOC	01-01-2014 but sen wef 01-01-2010	
42	IC53376	V GAUR	AOC	01-02-2014 but sen wef 01-01-2010	
43	IC53139	K RANJIT	EME	04-03-2013 but sen wef 01-01-2010	
44	IC53180	A JOHAR	EME	12-04-2013 but sen wef 01-01-2010	
45	IC53194	S SOOD	EME	26-03-2013 but sen wef 01-01-2010	
46	IC53202	RAVI SINGH	EME	15-04-2013 but sen wef 01-01-2010	
47	IC53296	V MADHOK	EME	22-04-2013 but sen wef 01-01-2010	
48	IC53298	D VARSHNEY	EME	29-04-2013 but sen wef 01-01-2010	
49	IC53324	VK MISHRA	EME	13-04-2013 but sen wef 01-01-2010	
50	IC53326	MS SONI	EME	01-07-2013 but sen wef 01-01-2010	
51	IC53393	PP SINGH	EME	21-06-2013 but sen wef 01-01-2010	
52	IC56921	VKS CHAUHAN	EME	15-07-2013 but sen wef 01-01-2010	
53	V00506	MANGAL SINGH	RVC	05-04-2013 but sen wef 01-01-2010	
54	V00501	AMIT KUMAR	RVC	17-04-2013 but sen wef 01-01-2010	
55	IC-55650	SS CHEEMA	AC	12-09-2013 but sen wef 24-04-2012	
56	IC-55687	SUMIT KADIAN	AC	11-11-2013 but sen wef 24-04-2012	
57	IC-56933	US DHILLON	AC	25-11-2013 but sen wef 24-04-2012	
58	IC-56934	AK TIWARY	AC	10-02-2014 but sen wef 24-04-2012	
59	IC-56938	S PRAKASH, SM	AC	31-12-2013 but sen wef 24-04-2012	
60	IC-57034	A UPPAL	AC	26-12-2013 but sen wef 24-04-2012	

61	IC-57059	P JOSHI	AC	16-08-2013 but sen wef 24-04-2012	
62	IC-57090	JITENDAR SINGH	AC	29-10-2013 but sen wef 24-04-2012	
63	IC-57096	MK SINGH, SM	AC	25-07-2013 but sen wef 24-04-2012	
64	IC-57121	S DUBE	AC	22-08-2013 but sen wef 24-04-2012	
65	IC-57174	JS GILL	AC	01-12-2013 but sen wef 24-04-2012	
66	IC-57349	V KARTHIK	AC	20-09-2013 but sen wef 24-04-2012	
67	IC-57472	Y SINGH	AC	10-09-2013 but sen wef 24-04-2012	
68	IC-57654	S DEEP	AC	25-07-2013 but sen wef 24-04-2012	
69	IC-55437	J MANN	AAD	21-10-2013 but sen wef 21-07-2011	
70	IC-56645	NAVNEET CHAIL	AVN	17-10-2013 but sen wef 21-07-2011	
71	IC-57094	S PRATAP	INF	24-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
72	IC-55794	V WADHWA	INF	17-09-2013 but sen wef 04-03-2013	
73	IC-55812	VS KOCHHAR	INF	22-09-2013 but sen wef 04-03-2013	
74	IC-55815	R RAMANATHAN	INF	22-06-2013 but sen wef 04-03-2013	
75	IC-55834	AK CHAND,SC	INF	20-11-2013 but sen wef 04-03-2013	
76	IC-57763	V KADIAN,SM	INF	27-09-2013 but sen wef 04-03-2013	
77	IC-57765	CHINGKHEINGANBA	INF	13-06-2013 but sen wef 04-03-2013	
78	IC-57775	A CHAMBIAL, SM	INF	04-10-2013 but sen wef 04-03-2013	
79	IC-57811	PS SANDHU, SM	INF	22-01-2014 but sen wef 04-03-2013	
80	IC-57821	A JAISWAL	INF	13-06-2013 but sen wef 04-03-2013	
81	IC-57836	BS SANDHU	INF	23-09-2013 but sen wef 04-03-2013	
82	IC-57846	VV RAMANAN	INF	13-06-2013 but sen wef 04-03-2013	
83	IC-57851	MR JAGADISH	INF	13-06-2013 but sen wef 04-03-2013	
84	IC-57860	YK BISHT	INF	20-08-2013 but sen wef 04-03-2013	
85	IC-57879	A PANGHAL	INF	20-09-2013 but sen wef 04-03-2013	
86	IC-57892	UB BARAWKAR	INF	05-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
87	IC-57956	SARABAJEET SINGH	INF	21-09-2013 but sen wef 04-03-2013	
88	IC-57959	RAJMEET SINGH	INF	13-06-2013 but sen wef 04-03-2013	
89	IC-57969	RS PARIHAR	INF	09-08-2013 but sen wef 04-03-2013	
90	IC-57999	PK DWIVEDI	INF	13-06-2013 but sen wef 04-03-2013	
91	IC-58013	N GURUNG	INF	03-11-2013 but sen wef 04-03-2013	
92	IC-58052	S BHATTACHARYYA	INF	13-06-2013 but sen wef 04-03-2013	
93	IC-58063	N KADIAN, SM	INF	13-06-2013 but sen wef 04-03-2013	
94	IC-55971	JODHVIR SINGH, SC	INF	07-11-2013 but sen wef 04-03-2013	
95	IC-55973	H ATWAL, SM	INF	07-11-2013 but sen wef 04-03-2013	
96	IC-55975	A HOODA, SM	INF	07-11-2013 but sen wef 04-03-2013	
97	IC-55978	R KUMAR	INF	07-11-2013 but sen wef 04-03-2013	
98	IC-55985	S MADAN,SM	INF	07-11-2013 but sen wef 04-03-2013	
99	IC-55999	S SAKLANI	INF	07-11-2013 but sen wef 04-03-2013	
100	IC-56003	PP SAHA	INF	07-11-2013 but sen wef 04-03-2013	
101	IC-56023	KJ SRINIVASAN	INF	07-11-2013 but sen wef 04-03-2013	
102	IC-56037	V RATHI	INF	07-11-2013 but sen wef 04-03-2013	
103	IC-56043	SR ANANDARAO	INF	07-11-2013 but sen wef 04-03-2013	
104	IC-58150	MS KAHLOON	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
105	IC-58155	RAJESH KUMAR	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
106	IC-58159	SV KULKARNI	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
107	IC-58164	KUNAL SHARMA, SM	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
108	IC-58165	MANISH SEHGAL	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
109	IC-58179	GAGAN ANAND	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
110	IC-58180	GD KOLE	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
111	IC-58183	ASHOK ARYA, SM	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
112	IC-58184	UB GURUNG	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
113	IC-58201	PRADEEP BALHARA	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
114	IC-58210	GP SINGH	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	

115	IC-58215	RANJIT JHA	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
116	IC-58220	P JHINKWAN	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
117	IC-58226	VINEET TYAGI	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
118	IC-58230	AJAI RAJ	INF	26-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
119	IC-58238	MANISH KARKI, SM	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
120	IC-58248	ABHIJEET THAKRE	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
121	IC-58249	GURINDER PAL	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
122	IC-58250	ROHIT THAKUR	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
123	IC-58282	RK MISHRA	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
124	IC-58291	K ARUN	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
125	IC-58296	KUMAR RANVIJAY, SM	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
126	IC-58301	APS BHADORIA	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
127	IC-58314	SK TIWARI	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
128	IC-58323	V BAHUKHANDI	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
129	IC-58336	RANBIR SINGH	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
130	IC-58340	R CHOUDHARY	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
131	IC-58354	MS KUMAR	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
132	IC-58360	PRAYOG SUBBA	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
133	IC-58366	HARPREET SINGH	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
134	IC-58370	TARUN SATI	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
135	IC-58371	HAOBAM ROMESH	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
136	IC-58394	DHIRENDRA SINGH	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
137	IC-58397	BS UPPAL	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
138	IC-58400	TKS SEKHON. SC	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
139	IC-58410	MAYANK PATHANIA	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
140	IC-58430	AMIT SONI, SM	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
141	IC-58432	SUMEET DUA	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
142	IC-58433	TS MANN	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
143	IC-58443	YUSUF SAIFY	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
144	IC-58453	KUSHAL SINGH	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
145	IC-58454	S SHARMA	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
146	IC-58461	S DUSEJA	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
147	IC-58464	S SONDHI	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
148	IC-58468	ANJANI KUMAR	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
149	IC-58482	VS SANKHLA	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
150	IC-58512	BARAWKAR VB	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
151	IC-58520	RAKESH KUMAR	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
152	IC-58540	SK PATTANAIK	INF	12-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
153	IC-55444	A TRIPATHI	MECH INF	20-07-2013 but sen wef 24-04-2012	
154	IC-56898	GV RAGHAVAN	MECH INF	10-11-2013 but sen wef 24-04-2012	
155	IC-57052	A SHARMA	MECH INF	28-10-2013 but sen wef 24-04-2012	
156	IC-57070	A THAKUR	MECH INF	26-10-2013 but sen wef 24-04-2012	
157	IC-57092	KARAMJIT SINGH	MECH INF	17-08-2013 but sen wef 24-04-2012	
158	IC-57098	V DEV	MECH INF	10-09-2013 but sen wef 24-04-2012	
159	IC-57370	BS BHANDARI	MECH INF	04-10-2013 but sen wef 24-04-2012	
160	IC-57434	SPS CHOUHAN	MECH INF	18-10-2013 but sen wef 24-04-2012	
161	IC-55130	SANDEEP RATRA	JAG	27-09-2013 but sen wef 01-01-2010	
162	IC-54298	R GUPTA	ENGRS	07-12-2013 but sen wef 21-07-2011	
163	IC-54342	GS PURI	ENGRS	16-08-2013 but sen wef 21-07-2011	
164	IC-54404	S SINGH	ENGRS	06-08-2013 but sen wef 21-07-2011	
165	IC-56631	SONENDER SINGH	ENGRS	29-08-2013 but sen wef 21-07-2011	
166	IC-56677	RAJESH GUPTA	ENGRS	13-08-2013 but sen wef 21-07-2011	
167	IC-56716	H PUNDIR	ENGRS	14-10-2013 but sen wef 21-07-2011	
168	IC-56757	MP SINGH	ENGRS	22-08-2013 but sen wef 21-07-2011	

169	IC-56821	RPS RANA	ENGRS	01-08-2013 but sen wef 21-07-2011	
170	IC-54353	P MISHRA	INT CORPS	20-02-14 but sen wef 21-07-2011	
171	IC-54395	M NARANG	INT CORPS	25-06-2013 but sen wef 21-07-2011	
172	IC-54432	AW MAHAJAN	INT CORPS	25-06-2013 but sen wef 21-07-2011	
173	IC-56646	VAKIL KUMAR , SM	INT CORPS	25-06-2013 but sen wef 21-07-2011	
174	IC-56685	JS BHATTI	INT CORPS	03-07-2013 but sen wef 21-07-2011	
175	IC-56762	NK SANGWAN	INT CORPS	16-07-2013 but sen wef 21-07-2011	

S NO	P/No.	NAME	CGs	SUBSTANTIVE RK	REMARKS
1	IC57135	R BISHT	ARTY	01 Mar 2013 but sen wef 24 Apr 2012	DO Pt II encl
2	IC57035	SANDHAN MISHRA	ARTY	15 Jan 2013 but sen wef 24 Apr 2012	
3	IC53969	VISHAL NAGPAL	SIGS	28 Oct 2012 but sen wef 31 Dec 2010	
4	IC52390	VK KAPOOR	EME	10 Aug 12 but sen wef 01 Jun 2009	
5	IC55040	SANJEEV POONIA	EME	26 Oct 12 but sen wef 01 Jan 2010	
6	IC52749	JS SIAL	EME	22 Nov 12 but sen wef 01 Jan 2010	
7	IC52763	SAURABH BHARGAVA	EME	22 Oct 12 but sen wef 01 Jan 2010	
8	IC53900	DURLABH SINGH	ENGRS	10 Aug 2012 but sen wef 01 Jun 2009	
9	IC53501	RAVINDER PAL SINGH	ENGRS	01 Jan 2013 but sen wef 31 Dec 2010	

NAVIN KUMAR
Dy Director
MS-8A

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

No. 252, dated 24th October 2014—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name:-

COLONEL TO BRIGADIER

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
BRIG XAVIER KATHRI KUTTY	NR-17172 L	01 JUN 2014

SUNITA KAPOOR
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 253, dated 27th October 2014—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
CORRIGENDA

LT COL TO BE SUBSTANTIVE COL (BY SELECTION)

For

SER	PERS NO	NAME	ARM/SERVICE	SUBS COL
1	V00386	MANJIT SINGH	RVC	01 Jun 2008
2	V00391	PR VENKATESH	RVC	01 Jun 2008
3	V00392	NARBIR SINGH	RVC	01 Jun 2008
4	V00395	RAJIV CHAUDHARY	RVC	01 Jun 2008
5	V00396	SS YADAV	RVC	01 Jun 2008

Read

SER	PERS NO	NAME	ARM/SERVICE	SUBS COL
1	V00386	MANJIT SINGH	RVC	01 Jun 2008 but sen wef 01 May 2007
2	V00391	PR VENKATESH	RVC	01 Jun 2008 but sen wef 01 May 2007
3	V00392	NARBIR SINGH	RVC	01 Jun 2008 but sen wef 01 May 2007
4	V00395	RAJIV CHAUDHARY	RVC	01 Jun 2008 but sen wef 01 May 2007
5	V00396	SS YADAV	RVC	01 Jun 2008 but sen wef 01 May 2007

LT COL TO BE SUBSTANTIVE COL (BY SELECTION)

For

SER	PERS NO	NAME	ARM/SERVICE	SUBS COL
1	V00398	ANIL KUMAR	RVC	01 May 2009
2	V00416	RAJAN THAPAR	RVC	01 May 2009
3	V00417	KK SHARMA	RVC	01 May 2009
4	V00419	PP RANA	RVC	01 May 2009
5	V00402	RV DHUMAL	RVC	01 May 2009
6	V00407	PB DESHMUKH	RVC	01 May 2009
7	V00408	CS OJHA	RVC	01 May 2009
8	V00409	CSM DESAI	RVC	01 May 2009
9	V00411	PK PRUSTY	RVC	01 May 2009

Read

SER	PERS NO	NAME	ARM/SERVICE	SUBS COL
1	V00398	ANIL KUMAR	RVC	01 May 2009 but sen wef 01 Jan 2008
2	V00416	RAJAN THAPAR	RVC	01 May 2009 but sen wef 01 Jan 2008
3	V00417	KK SHARMA	RVC	01 May 2009 but sen wef 01 Jan 2008
4	V00419	PP RANA	RVC	01 May 2009 but sen wef 01 Jan 2008
5	V00402	RV DHUMAL	RVC	01 May 2009 but sen wef 01 Jan 2008
6	V00407	PB DESHMUKH	RVC	01 May 2009 but sen wef 01 Jan 2008
7	V00408	CS OJHA	RVC	01 May 2009 but sen wef 01 Jan 2008
8	V00409	CSM DESAI	RVC	01 May 2009 but sen wef 01 Jan 2008
9	V00411	PK PRUSTY	RVC	01 May 2009 but sen wef 01 Jan 2008

NAVIN KUMAR
Dy Director
MS-8A

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in